

Sub: Newspaper Publication of Notice to Shareholders for transfer of Equity Shares to IEPF Authority.

Please find enclosed the copies of the Newspaper Publication of Notice to Shareholders for transfer of Equity Shares to IEPF Authority, published in the newspapers on 19.12.2023 in 'Indian Express and Financial Express', in English language and in 'Jansatta' in Hindi language, in all India edition.

This is for your information and record please.



भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का एक नवतन्त्र उपक्रम) (A Navratna Undertaking of Govt. of India)



(सीआईएन: L63011DL1988GOI030915)

पंजीकृत कार्यालय एवं निवेशक संबंध केंद्र: कॉन्कोर भवन, सी-3, मथुरा रोड,
अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110076 फोन नं.: 011-4122 2500/600/700
ई-मेल: investorrelations@concorindia.com, वेबसाइट: http://www.concorindia.co.in

शेयरधारकों के लिए सूचना

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ)
में कंपनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण

एतद्वारा शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि समय-समय पर यथासंशोधित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 ("नियम") के प्रावधानों के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए घोषित अंतरिम लाभांश, जो सात वर्षों की अवधि के लिए अदावी रहा है, को 21.03.2024 को आईईपीएफ में जमा किया जाएगा। जिन संबंधित शेयरों पर लाभांश लगातार सात वर्षों तक दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतरित किया जाएगा।

कंपनी ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित नहीं करेगी जहां ऐसे शेयरों के अंतरण पर न्यायालय/अधिकरण द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है या जहां निक्षेपागार (डिपॉजिटरीज) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत शेयरों को बंधक/गिरवी रखा गया है।

नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है और आईईपीएफ में अंतरित होने वाले ऐसे शेयरों का विवरण इसकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। संबंधित शेयरधारक अपने अप्रदत्त लाभांश और अंतरित किए जाने वाले शेयरों के विवरण को सत्यापित करने के लिए वेब-लिंक www.concorindia.co.in को देख सकते हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2016-17 और उसके बाद के लिए घोषित अंतरिम लाभांश का आईईपीएफ में अंतरण हेतु देय दावा तिथि से पूर्व करें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारक और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने योग्य हैं, ध्यान दें कि कंपनी आईईपीएफ को 'शेयरों के अंतरण के उद्देश्य' से उनके द्वारा रखे गए मूल के बदले में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे मुद्दे पर, कंपनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों को डीमैट फॉर्म में बदलने और उन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में अंतरित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र, जो मूल शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत हैं, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और उन्हें विक्रय योग्य नहीं माना जाएगा। अधौतिक (डिमैट) रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारक ध्यान दें कि कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते के पक्ष में शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

शेयरधारक यह भी ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट (https://concorindia.co.in/assets/pdf/CONCOR_IJEPF.pdf) पर उपलब्ध कराए गए विवरण को आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के अंतरण के उपरोक्त मामले के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

यदि कंपनी को 21.03.2024 को या उससे पहले संबंधित शेयरधारकों से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी नियमों की आवश्यकताओं का पालन करते हुए वित्त वर्ष 2016-17 के अदावी अंतरिम लाभांश को नियत तिथि अर्थात् 20.04.2024 को आईईपीएफ में अंतरित कर देगी। जिन संबंधित शेयरों पर लाभांश लगातार सात वर्षों तक दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी बिना किसी अतिरिक्त सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ में अंतरित अदावाकृत लाभांश राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा। शेयरधारक नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से लाभांश और आईईपीएफ को अंतरित संबंधित शेयरों, जिसमें ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ, यदि कोई हों, भी शामिल हैं, का दावा कर सकते हैं।

कोई भी शेयरधारक/व्यक्ति जिसके पास ऐसे शेयरों या लाभांश के संबंध में कोई दावा/प्रश्न है या उपरोक्त मामले पर कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो वह कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड से बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगौर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली-110062; फोन: 011-29961281/82/83; ईमेल: beetalrta@gmail.com अथवा concor@beetalfinancial.com पर संपर्क कर सकता है।

कृते भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

हस्ता./-

स्थान: नई दिल्ली, भारत
दिनांक: 14.12.2023

कार्यपालक निदेशक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

लॉजिस्टिक्स की बात, कॉन्कोर के साथ



भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का एक नवदलन उद्योग) (A Navratna Undertaking of Govt. of India)
(CIN: L63011DL1988GOI030915)



Regd. Office & Investors Relation Centre: CONCOR Bhawan,
C-3, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi-110 076.
Tel. Nos. : 011-4122 2500/600/700, Email : investorrelations@concorindia.com,
Website : <http://www.concorindia.co.in>

NOTICE TO SHAREHOLDERS
TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO
INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as amended from time to time, the Interim Dividend declared for the financial year 2016-17, which remained unclaimed for a period of seven years will be due to be credited to the IEPF on 21.03.2024. The corresponding shares on which dividend would remain unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

The Company will not transfer such shares to the IEPF Authority where there is a specific order of Court/tribunal restraining any transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996.

In compliance to the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders and the details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on its website. Shareholders concerned may refer to the web-link www.concorindia.co.in to verify the details of their unencashed dividend(s) and the shares liable to be transferred.

Shareholders are requested to claim the Interim Dividend declared for the financial year 2016-17 and onwards before the same becomes due for transfer to the IEPF.

Concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer those shares in favour of IEPF Authority. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the DEMAT account of the IEPF Authority.

The shareholders may further note that the details made available by the Company on its website (https://concorindia.co.in/assets/pdf/CONCOR_IEPF.pdf) shall be deemed as adequate notice in respect of above matter of transfer of shares to IEPF Authority.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before 21.03.2024, the Company with a view to adhering with the requirements of the Rules, will transfer the unclaimed Interim Dividend of FY 2016-17 to the IEPF by the due date i.e. 20.04.2024. The corresponding shares, on which dividend is unclaimed for seven consecutive years, shall also be transferred to IEPF Authority without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules.

Any shareholder(s)/person(s) who has/have any claim(s)/queries in respect of such shares or dividend or for any clarification on the above matter, may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, New Delhi-110062 Ph.: 011-29961281/82/83; email: beetalrta@gmail.com or concor@beetalfinancial.com.

For Container Corporation of India Ltd.
Sd/-
Executive Director (Finance) & CS

Place: New Delhi, India
Date: 14.12.2023

Think Logistics, Think CONCOR